



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 फाल्गुन 1945 (श0)  
(सं0 पटना 202) पटना, सोमवार, 04 मार्च 2024

---

#### संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

1 मार्च 2024

सं० सं० का०-1/वि०मं०(महानुभाव)-08-02/2018-229—सचिव, बिहार विधान परिषद के ज्ञापक-306(1)/वि०प०, दिनांक-15.02.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद ने सदन में राष्ट्रीय जनता दल के श्रीमती राबड़ी देवी, मा०स०वि०प० को बिहार विधान परिषद में नेता, विरोधी दल की मान्यता दिनांक 15.02.2024 के प्रभाव से प्रदान की है, जिसे बिहार विधान परिषद की अधिसूचना संख्या-305(1)/वि०प० दिनांक 15.02.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 (क) के प्रावधानों के तहत श्रीमती राबड़ी देवी, मा०स०वि०प० को बिहार विधान परिषद् सचिवालय की अधिसूचना के आलोक में दिनांक 15.02.2024 के प्रभाव से सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नवीन,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 202-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>